



सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या 410 राँची, सोमवार

25 ज्येष्ठ, 1937 (श०)

15 जून, 2015 (ई०)

jkt; fuokpu vk; kx] >kj [k.M

आदेश

5 जून, 2015

संख्या: 03नि०-95/2012 रा०नि०आ० 1424 -- यतः राज्य निर्वाचन आयोग को समाधान हो गया है कि नीचे की सारणी के स्तम्भ (2) में यथा विनिर्दिष्ट जिला से त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन, 2010 के लिए जो स्तम्भ (3) में विनिर्दिष्ट निर्वाचन क्षेत्र से हुआ है, स्तम्भ (4) में उसके सामने विनिर्दिष्ट निर्वाचन लड़ने वाला प्रत्येक अभ्यर्थी झारखण्ड पंचायत राज अधिनियम, 2001 की धारा 68 क, सहपठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्यधीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित उक्त सारणी के स्तम्भ (5) में यथा दर्शित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहा है ;

और यतः उक्त अभ्यर्थी / अभ्यर्थियों ने समयक सूचना दिये जाने पर भी उक्त असफलता के लिया कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है या उनके द्वारा दिये गए अभ्यावेदनों पर, यदि कोई हो, विचार करने के पश्चात राज्य निर्वाचन आयोग का यह समाधान हो गया है कि उनके पास उक्त असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायौचित्य नहीं है ;

अतः उपायुक्त, साहेबगंज के प्रतिवेदन / अनुपूरक प्रतिवेदन के आधार पर अब राज्य निर्वाचन आयोग, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 कि धारा 10क सहपठित, झारखंड पंचायत राज अधिनियम, 2001 की धारा 68 'क' के अनुसरण में नीचे की सारणी के स्तम्भ (4) में विनिर्दिष्ट व्यक्तियों को त्रिस्तरीय पंचायत निकायों एवं स्थानीय नगर निकायों के किसी भी पद या स्थान के लिए चुने जाने और निर्वाचित होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरहित किया जाता है ।

Øekol	ftyk	fuokpu {k-	ule ,oairk	dlj.k
1	2	3	4	5
1	I kgçxat	X I kgçxat &01	i ækn dækj] egknøxat	fuokpu 0; ; ka dh ys[kk nkf[ky djusea vl Qy jgA
2		X I kgçxat &01	j esk ; kno] egknøxat	fuokpu 0; ; ka dh ys[kk nkf[ky djusea vl Qy jgA
3		X I kgçxat &01	j ke no ; kno] 'kkkkuig HkVBk	fuokpu 0; ; ka dh ys[kk nkf[ky djusea vl Qy jgA
4		X I kgçxat &01	f'ko dækj jk:] 'kkkkuig HkVBk	fuokpu 0; ; ka dh ys[kk nkf[ky djusea vl Qy jgA
5		X I kgçxat &02	deysoj g[æ] /kuokl k] eMjks	fuokpu 0; ; ka dh ys[kk nkf[ky djusea vl Qy jgA
6		X I kgçxat &02	tBk fdLd] cMh dknj tLuk] eMjks	fuokpu 0; ; ka dh ys[kk nkf[ky djusea vl Qy jgA
7		X I kgçxat &02	tEl fdLd] ckpgh] eMjks	fuokpu 0; ; ka dh ys[kk nkf[ky djusea vl Qy jgA

8	X I kgc:xaat &02	i Hkkorh ckLdh] fl j l k] eMjks	fuokpu 0; ; ka dh y[kk nkf[ky djusea vl Qy jgA
9	X I kgc:xaat &02	eukst l kg[sa] Hkx\$ k] eMjks	fuokpu 0; ; ka dh y[kk nkf[ky djusea vl Qy jgA
10	X I kgc:xaat &02	jesk fdLdh] Nk/k c[kauk] eMjks	fuokpu 0; ; ka dh y[kk nkf[ky djusea vl Qy jgA
11	X I kgc:xaat &05	i qik ejkMh] dq ek] cjg[fuokpu 0; ; ka dh y[kk nkf[ky djusea vl Qy jgA
12	X I kgc:xaat &05	l qkhyk ejkMh] cjg[fuokpu 0; ; ka dh y[kk nkf[ky djusea vl Qy jgA
13	X I kgc:xaat &06	Hkhek i gkM+ k] cMk i hpd[wh] cjg[fuokpu 0; ; ka dh y[kk nkf[ky djusea vl Qy jgA
14	X I kgc:xaat &06	jkt[sk ckLdh] Hkxkckak] HkxukMhg cjg[fuokpu 0; ; ka dh y[kk nkf[ky djusea vl Qy jgA
15	X I kgc:xaat &06	l qj l kg[sa] jkgMh] cjg[fuokpu 0; ; ka dh y[kk nkf[ky djusea vl Qy jgA
16	X I kgc:xaat &07	vthr ejkMh] rky>kjh	fuokpu 0; ; ka dh y[kk nkf[ky djusea vl Qy jgA
17	X I kgc:xaat &07	i =kl fdLdh] fgl h[axat] rky>kjh	fuokpu 0; ; ka dh y[kk nkf[ky djusea vl Qy jgA
18	X I kgc:xaat &08	vp[uk nsh] dY; k.kpd] jktegy	fuokpu 0; ; ka dh y[kk nkf[ky djusea vl Qy jgA
19	X I kgc:xaat &10	nhi [nz d[jk;] l q[; kj i kMh] m/kok	fuokpu 0; ; ka dh y[kk nkf[ky djusea vl Qy jgA
20	X I kgc:xaat &10	l kmn 'k[k] m/kok	fuokpu 0; ; ka dh y[kk nkf[ky djusea vl Qy jgA

21	X I kgc:xa&10	I ckk dekj ?kkkj tckk] m/kok	fuokpu 0; ; ka dh ys[kk nkf[ky djusea vl Qy jgA
22	X I kgc:xa&12	ppyk jkuh pl&kjh] vkrki g] m/kok	fuokpu 0; ; ka dh ys[kk nkf[ky djusea vl Qy jgA
23	X I kgc:xa&12	pEik noh] dsykckMh] m/kok	fuokpu 0; ; ka dh ys[kk nkf[ky djusea vl Qy jgA
24	X I kgc:xa&12	puk efYyd] Jh/kj] m/kok	fuokpu 0; ; ka dh ys[kk nkf[ky djusea vl Qy jgA
25	X I kgc:xa&14	I kkk noh] I kgcMkck] cjgjok	fuokpu 0; ; ka dh ys[kk nkf[ky djusea vl Qy jgA

jKT; fuokpu vk; Or ds vkns k I }

(g0@&) अस्पष्ट

I fpo

jKT; fuokpu vk; kx]

>kj [k.M] jkpbh A
